

ऊंची उड़ान ... नए कीर्तिमान...



असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

आरईसी REC

लोन बुक
₹ 1,68,971 करोड़
वृद्धि 19%

कुल आय
₹ 15,017 करोड़
वृद्धि 19%

निवल ब्याज
आय
₹ 6,027 करोड़
वृद्धि 21%

पीएटी
₹ 4,163 करोड़
वृद्धि 19%

ईपीएस
₹ 42.16
वृद्धि 19%

अंतरिम
लाभांश ₹ 8.00
(₹ 10/- के
प्रत्येक इक्विटी
शेयर पर)

31.12.2014 को समाप्त तिमाही और नौमाही के स्टैंड अलोन वित्तीय परिणाम के विवरण

भाग I		(₹ लाख में)					
क्र. सं.	विवरण	31.12.2014 (गैर-लेखापरीक्षित)	30.09.2014 (गैर-लेखापरीक्षित)	31.12.2013 (गैर-लेखापरीक्षित)	31.12.2014 (गैर-लेखापरीक्षित)	31.12.2013 (गैर-लेखापरीक्षित)	31.03.2014 को समाप्त वर्ष (लेखापरीक्षित)
1	प्रचालनों से आय						
	क ब्याज आय	5,14,453	4,98,619	4,32,897	14,77,882	12,41,023	16,80,639
	ख अन्य प्रचालन आय	6,076	3,752	4,763	11,731	16,524	21,159
	प्रचालनों से कुल आय	5,20,529	5,02,371	4,37,660	14,89,613	12,57,547	17,01,798
2	व्यय						
	क वित्त लागत	3,04,487	2,95,447	2,59,380	8,75,163	7,41,511	10,03,846
	ख कर्मचारी हित लाभ व्यय	2,692	3,376	3,829	9,561	11,023	12,991
	ग अन्य व्यय	2,267	2,267	2,055	6,688	5,417	10,508
	घ अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता	206	-	2,500	10,888	4,732	4,732
	ङ मानक ऋण परिसंपत्तियों के छूट प्रावधान	(739)	1,797	5,044	2,495	11,724	26,470
	च पुनर्गठित ऋण पर छूट	19,605	-	-	19,605	-	-
	छ मूल्यहास और ऋण परिशोधन व्यय	165	177	107	529	317	421
	कुल व्यय	3,28,683	3,03,064	2,72,915	9,24,929	7,74,724	10,58,968
3	अन्य आय से पूर्व प्रचालनों से लाभ एवं विशिष्ट मदें (1-2)	1,91,846	1,99,307	1,64,745	5,64,684	4,82,823	6,42,830
4	अन्य आय	3,903	4,256	2,857	12,116	5,533	10,282
5	विशिष्ट मदों से पूर्व साधारण क्रियाकलापों से लाभ (3+4)	1,95,749	2,03,563	1,67,602	5,76,800	4,88,356	6,53,112
6	विशिष्ट मदें	-	-	-	-	-	-
7	कर पूर्व साधारण क्रियाकलापों से लाभ (5+6)	1,95,749	2,03,563	1,67,602	5,76,800	4,88,356	6,53,112
8	कर संबंधी व्यय						
	- चालू वर्ष	57,527	54,707	50,397	1,63,311	1,16,793	1,70,466
	- आस्थगित कर देयता/(परिसंपत्ति)	180	(1,219)	(5,562)	(2,907)	20,983	12,872
	- गत वर्ष / (वापसी)	59	-	-	59	1,374	1,404
9	कर पश्चात साधारण क्रियाकलापों से निवल लाभ (7-8)	1,37,983	1,50,075	1,22,767	4,16,337	3,49,206	4,68,370
10	असाधारण मदें (कर व्यय का निवल)	-	-	-	-	-	-
11	अवधि के लिए निवल लाभ (9-10)	1,37,983	1,50,075	1,22,767	4,16,337	3,49,206	4,68,370
12	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य ₹10 प्रति शेयर)	98,746	98,746	98,746	98,746	98,746	98,746
13	आरक्षित एवं अधिशेष (पुनर्मूल्यन आरक्षित निकालकर) (31 मार्च की यथास्थिति लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार)						19,68,200
14	i अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) (असाधारण मदों से पूर्व) (₹ 10 प्रति) (वार्षिकीकृत नहीं) (₹ में)						
	क मूल	13.97	15.20	12.43	42.16	35.36	47.43
	ख डायल्यूटिड	13.97	15.20	12.43	42.16	35.36	47.43
	ii अर्जन प्रति शेयर (ईपीएस) (असाधारण मदों से पूर्व) (₹ 10 प्रति) (वार्षिकीकृत नहीं) (₹ में)						
	क मूल	13.97	15.20	12.43	42.16	35.36	47.43
	ख डायल्यूटिड	13.97	15.20	12.43	42.16	35.36	47.43

टिप्पणी

- 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही और नौ माह की अवधि के उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की 13 फरवरी, 2015 को आयोजित बैठक में लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई है और इसे निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी, 2015 को आयोजित बैठक में अनुमोदित कर रिकार्ड कर लिया गया है।
- कंपनी के संयुक्त सांख्यिक लेखापरीक्षकों द्वारा इन परिणामों की सीमित समीक्षा की गई है।
- कंपनी ने ऐसी मदों की शेष अवधि में दीर्घकालिक विदेशी मौद्रिक मदों के संबंध में विदेशी मुद्रा के घट-बढ़ के कारण होने वाली हानि/(लाभ) में परिशोधन का विकल्प चुना है। विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतर खाते में परिशोधित की जाने वाली शेष रकम ₹449.49 करोड़ थी (दिनांक 31.12.2013 को ₹777.32 करोड़) है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 जुलाई, 2013 और 4 अप्रैल 2014 के अपने पत्र के जरिए कंपनी को संसूचित किया है कि वह 31 मार्च 2016 तक भारतीय रिजर्व बैंक के विवेकपूर्ण मापदंडों का अनुपालन करें और परिसंपत्तियों के पुनर्गठन के संबंध में अधिसूचना संख्या डीएनबीएस (पीडी) संख्या 271/ सीजीएम (एनएसवी) -2014 के जरिए जारी किए गए भारतीय रिजर्व बैंक के 23 जनवरी, 2014 के परिपत्र में दिए गए अनुदेशों का पालन करें। इसके पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक ने 11 जून, 2014 के अपने पत्र के जरिए पारंपरिक एवं वितरण, नदीकरण एवं आधुनिकीकरण और परियोजनाओं की मियाद बढ़ाने के लिए और हिमालयी क्षेत्र या प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र में हाईड्रो परियोजनाओं के लिए भी 31 मार्च 2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक के पुनर्गठन संबंधी मापदंडों से कंपनी को छूट प्रदान की है। दिनांक 01.04.2015 से पुनर्गठित विद्युत उत्पादन संबंधी कंपनियों को नया परियोजना ऋण देने के लिए 5% का प्रावधान अपेक्षित होगा और ऐसी परियोजनाओं की दिनांक 31.03.2015 के अनुसार ऋण के स्टॉक के लिए दिनांक 31.03.2015

भाग II

31.12.2014 को समाप्त तिमाही की चुनिंदा सूचना

क्र. सं.	विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त नौमाही		समाप्त वर्ष
		31.12.2014	30.09.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	
A	शेयरहोल्डिंग का विवरण						
1	पब्लिक शेयरहोल्डिंग						
	- शेयरों की संख्या	33,92,90,782	33,92,90,782	32,78,52,000	33,92,90,782	32,78,52,000	33,92,90,782
	- शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत	34.36%	34.36%	33.20%	34.36%	33.20%	34.36%
2	संप्रवर्तक और संप्रवर्तक समूह की शेयरहोल्डिंग						
	क) गिरवी रखे गए/विलगमित						
	- शेयरों की संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- शेयरों का प्रतिशत (संप्रवर्तक और संप्रवर्तक समूह की कुल शेयरहोल्डिंग के प्रतिशत के रूप में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	- शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) विलग्नम रहित शेयर						
	- शेयरों की संख्या	64,81,68,218	64,81,68,218	65,96,07,000	64,81,68,218	65,96,07,000	64,81,68,218
	- शेयरों का प्रतिशत (संप्रवर्तक और संप्रवर्तक समूह की कुल शेयरहोल्डिंग के प्रतिशत के रूप में)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
	- शेयरों का प्रतिशत (कंपनी की कुल शेयर पूंजी के प्रतिशत के रूप में)	65.64%	65.64%	66.80%	65.64%	66.80%	65.64%
		31.12.2014 को समाप्त तिमाही					
	विवरण	इक्विटी प्रतिभूतियां		ऋण प्रतिभूतियां			
ख	निवेशकों की शिकायतें (संख्या)						
	तिमाही के प्रारंभ में लंबित	0		0			
	तिमाही के दौरान प्राप्त	162		667			
	तिमाही के दौरान निपटाए गए	162		667			
	तिमाही के अंत तक शेष अनिर्णीत	0		0			

से 2.75% के प्रावधान की शुरुआत की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2018 तक 5% तक पहुंच जाएगा।

तदनुसार ऋणों की प्रावधान संबंधी लेखाकरण नीति में संशोधन किया गया है ताकि पुनर्गठित ऋणों के स्टॉक पर 2.75% की दर से प्रावधान किया जा सके। इसलिए इस तिमाही के दौरान 01 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक की अवधि के लिए आनुपातिक आधार पर प्रावधान किया गया है जो अर्हक ऋणों के संबंध में ₹196.05 करोड़ है (इसमें सरकारी क्षेत्र को ऋण ₹9,505.66 करोड़ + प्राइवेट क्षेत्र को ऋण - शून्य है)।

- कंपनी का मुख्य कार्य विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तपोषण करना है। तदनुसार कंपनी के पास लेखाकरण मानक 17 "खंड रिपोर्टिंग" के अनुसार रिपोर्टिंग के लिए एक से अधिक खंड पात्र नहीं है।
- कंपनी ने दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए 1 अक्टूबर, 2014 को ₹10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹1.75 के अंतिम लाभांश का भुगतान किया।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए ₹10 के प्रत्येक इक्विटी शेयर पर ₹8 के अंतरिम लाभांश की घोषणा की है। इसके अलावा अंतरिम लाभांश के भुगतान की रिकार्ड तारीख 20 फरवरी, 2015 निर्धारित की गई है।
- 30 जून, 2014 को समाप्त तिमाही के दौरान कंपनी ने, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-1 के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्यहास लेखाकरण नीति को संशोधित किया था, जो 01 अप्रैल, 2014 से लागू की गई है। लेखाकरण नीति में इस परिवर्तन के कारण 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही और नौ माह की अवधि का कर पूर्व लाभ घटकर क्रमशः ₹0.67 करोड़ और ₹2.26 करोड़ हो गया है। इसके अलावा स्थायी परिसंपत्तियों के संबंध में अर्जन को बनाए रखने के लिए ₹0.74 करोड़ की रकम (₹0.38 करोड़ का निवल कर) समायोजित की गई थी, जहां ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगी मियाद 01 अप्रैल 2014 को शून्य हो गई थी। यह कार्य कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची-1 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है। इसके अलावा उपर्युक्त टिप्पणी 4 में विनिर्दिष्ट लेखाकरण नीति में परिवर्तन के कारण 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही और नौ माह की अवधि का कर पूर्व लाभ घटकर ₹172.29 करोड़ हो गया है। ऐसा इन पुनर्गठित ऋणों पर मानक ऋण परिसंपत्तियों के विद्यमान प्रावधानों पर विचार करने के बाद किया गया है। कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाए जाने के लिए वित्तीय विवरणों और करों को तैयार करने के आधार के बारे में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों में आशोधन भी की किया गया है। लेकिन इन आशोधनों का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है।
- जहां कहीं आवश्यक था पूर्ववर्ती अवधि वर्षों के आंकड़ों को पुनः समूहित और व्यवस्थित कर दिया गया है। इसके अलावा 30 सितंबर, 2014 को समाप्त तिमाही और छमाही की सीमित समीक्षा के परिणामतः 30 सितंबर, 2014 को समाप्त छमाही के वित्तीय विवरणों की कंपनी के सांख्यिक लेखापरीक्षकों से लेखापरीक्षा करवाई गई थी और उसे निदेशक मंडल द्वारा 13 फरवरी 2015 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया। सीमित समीक्षित लेखाओं से लेखापरीक्षा के दौरान छोट-मोटा अंतर पाया गया था, जिसके कारण कर पश्चात लाभ में ₹3.55 करोड़ की वृद्धि हुई है। इसे 31 दिसंबर, 2014 को समाप्त तिमाही के आंकड़ों में समायोजित किया गया है।

कृते रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

ह/-

(राजीव शर्मा)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
सीआईएन-00973413

रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

कोर 4, स्कोप कांप्लेक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली-110003, फोन: 24365161, फैक्स: 24360644, ई-मेल: reccorp@recl.nic.in वेबसाइट: www.recindia.nic.in सीआईएन: L40101DL1969GOI005095